

राजीव गाँधी हत्याकांड के दोषी हुए रिहा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 6 दोषियों को रिहा कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को क्यों मुक्त किया ?

- ❖ 1998 के टाडा कोर्ट के निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषियों के आरोपों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा।
- ❖ किन्तु साजिश के तहत की गयी हत्या, IPC (302) और IPC (120-B) को प्रासंगिक बनाती है और बमबारी में हुई पुलिसकर्मियों की मौत कोई इरादतन घटना नहीं थी, इसलिए उनकी मौत का इन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
- ❖ **IPC धारा 120-B** : आपराधिक साजिश के अपराध को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति का भौतिक रूप से प्रकट होना आवश्यक है।
- ❖ **IPC धारा 302** : व्यक्ति अगर हत्या का दोषी साबित होता है।
- ❖ 2018 में, तमिलनाडु में तत्कालीन सरकार द्वारा की गयी रिहाई की अपील को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा (अनुच्छेद -201), परन्तु निर्णय में हुई देरी के कारण पेरारीवलन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की "कार्रवाई को संवैधानिक योजना के विपरीत बताया" और माना कि "अनुच्छेद 161" के तहत सजा कम करने/छूटने से संबंधित मामलों में राज्य मंत्रिमंडल की सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है, परन्तु अनुच्छेद-142 के तहत अब दोषियों के साथ न्याय , न्यायालय की जिम्मेदारी है।
- ❖ **अनुच्छेद-142**: सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपने समक्ष लंबित मामले पर पूर्ण न्याय कर सकता है।

आगे की राह

अनुच्छेद- 142 के तहत लागू होने वाले सभी मामलों को कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिये। अनुच्छेद 142 के प्रयोग से सम्बंधित मुद्दों पर सरकार को एक अवधि के पश्चात निर्णय के लाभकारी और नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करने हेतु एक श्वेतपत्र लाना चाहिये।

संभावित प्रश्न

प्र. संविधान का अनुच्छेद- 142, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

- सुप्रीम कोर्ट के फरमानों और आदेशों को लागू करने से।
- राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने से।
- मुख्यमंत्री की कार्य शक्ति से।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्र. सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र द्वारा कार्यपालिका और विधायिका का अधिक्रमण करता है। व्याख्या कीजिए। (150 शब्द)

Audio - Visual Course
Hindi Medium

- Regular Class**
5 Days/Week (Mon - Fri)
- Weekly Test**
Saturday
- Complete Study Materials**
- Doubt Solving Class**
By Manikant Sir (After Every 15 days)
- Daily Class Notes**
In PDF Form

Affordable
New Initiative

Join Now

Admission Open

THE STUDY
An Institute for IAS

HISTORY
(OPTIONAL)

Manikant Singh

9999516388
8595638669

Hindi Medium / English Medium

Annual Practice Test Series

Online - Offline

- Total Test - 24
- 16 Sectional Test
- 8 Full Test

After Every 15 Days

Join Now

THE STUDY
An Institute for IAS

HISTORY (OPTIONAL)

MANIKANT SINGH

210, Virat Bhawan,
2nd Floor, Near Post Office,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

9999516388
8595638669

THE STUDY
BY MANIKANT SINGH

thestudyias@gmail.com
MOB: 9999516388